



FDC Limited

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF FOODS, DRUGS & CHEMICALS

Date: April 08, 2022

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Sub.: Offer-Opening Advertisement pertaining to Buyback of Equity Shares by FDC Limited

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed the Offer-Opening Advertisement published in the following newspapers on Friday, April 08, 2022:

Name of publication	Language	Edition
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Loksatta	Marathi	Aurangabad edition

This will also be made available on the Company's website at www.fdcindia.com.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours sincerely,
For FDC Limited


Varsharani Katre
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: FCS-8948



FinMin: GatiShakti, PLI scheme to offset global headwind, boost growth

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 7 April

GatiShakti and Production-Linked Incentive Schemes will offset global headwinds and drive investment, resulting in high post-recovery growth for the Indian economy, a Finance Ministry report said.

Geopolitical conflicts and their consequent impact on food, fertiliser and crude oil prices cast a cloud on the growth outlook globally, according to the monthly Economic Review

prepared by the ministry. India may feel its impact although the magnitude will, of course, depend on how long the dislocations in energy and food markets persist in the financial year and how resilient India's economy is to mitigate the impact, it said, adding transient shocks may not have a big effect on real growth and inflation.

"Offsetting these potential headwinds, GatiShakti and Production Linked Incentive Schemes will drive investment, which will combine

with supply chains strengthened by structural reforms taken in the past few years to deliver high post-recovery growth for the Indian economy," it said.

With growing evidence of improving labour force participation and declining unemployment rate and the government's unwavering commitment to provide continued support to the economically poor (the PM Gharib Kalyan Yojana was extended for another six months, up to the end of September 2022), the growth path ahead will likely be a more inclusive one, it said.

INSACOG testing sewage water samples to detect Sars-CoV-2


Over 55 sites activated across country; no case of XE found in India so far

SOHINI DAS
Mumbai, 7 April

With cases of symptomatic Covid-19 disease on the decline, the Indian Sars-CoV-2 Genomic Consortium (INSACOG) has started surveillance of sewage water samples across 55 sites to detect presence of the Sars-CoV-2 virus. INSACOG also clarified that so far no confirmed case of XE variant has been detected in India.

"This is called environmental surveillance, and India has done this during the polio campaign. Now, the learnings from the polio drive are being used to pick up the Sars-CoV-2 virus from sewage water samples," said NK Arora, co-chair, INSACOG. He added that very few countries in the world have the technology and capability to detect virus particles from sewage water. India was the first country in the world to do so for polio, Arora said.

The protocol has been set methodically and this is being used to see the



"WE HAVE TO BE VIGILANT, AND QUICKLY SPOT ANY NEW MUTATION OR VARIANT IN CIRCULATION IN OUR POPULATION. ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE IS A WAY TO CONFIRM THE TRENDS WE ARE PICKING UP"

N K ARORA
co-chair, INSACOG

virus circulation in the environment. Many people with Covid-19 infection are either asymptomatic, or have very mild influenza-like symptoms. Therefore, many are not opting for testing through RT-PCR anymore.

"We have to be vigilant, and quickly spot any new mutation or variant in circulation in our population. Also, environmental surveillance is a way to confirm the trends we are picking up in routine genomic sampling of indi-

vidual samples," Arora told *Business Standard*. It also helps to pick up dominant strains in the population, and any geographical trends in the infection scenario.

India's experience with polio has come in handy. Arora said for every symptomatic case of polio, there are 300-500 asymptomatic cases in the area. Similarly, for every symptomatic Covid-19 case, there are 8-10 asymptomatic Covid cases in the vicinity.

So far, no confirmed case of XE variant has been detected here, Arora said, adding that the INSACOG laboratory network works as a three-layer system. "It's a wheel-and-cogs-like structure. There are 10 core laboratories that confirm the detection of any variant. Any sample that has undergone genomic sequencing anywhere in the country is sent to INSACOG too routinely," he explained.

On Wednesday, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) declared results of the 11th genome sequencing by the civic body. One sample tested positive for the XE variant of Sars-CoV-2 virus and another has tested positive for Kappa variant, the BMC said.

The Union health ministry, however, said the sample which is being said to be 'XE' variant was analysed in detail by genomic experts of INSACOG, who have inferred that the genomic constitution of this variant does not correlate with the genomic picture of 'XE' variant.

OFFER OPENING ADVERTISEMENT FOR THE BUY BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF

FDC Limited
(CIN: L24239MH1940PL003176)

Registered Office: B-8, M.I.D.C. Industrial Estate, Waluj - 431 130, Dist. Aurangabad, Maharashtra
Tel: +91 240 255 4407; Fax: +91 240 255 4299
Correspondence Address: C-3 SKYVISTAS, Near Versova Police Station 106A, J. P. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053
Tel: +91 22 2673 9215
Website: www.fdcindia.com, Email: varsharani.katre@fdcindia.com

Contact Person: Ms. Varsharani Katre, Company Secretary and Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 29,00,000 (TWENTY NINE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RE. 1/- (RUPEE ONE) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.72% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2021 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON FEBRUARY 19, 2022 ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 475 (RUPEES FOUR HUNDRED SEVENTY FIVE ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UPTO 13,775 LAKHS (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY SEVEN CRORE SEVENTY FIVE LAKH ONLY) ("BUYBACK SIZE").

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- The Public Announcement in connection with the Buyback published on February 11, 2022 in the following newspapers: i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - All Editions); and iii) LokSatta (Marathi - Aurangabad Edition) ("Public Announcement");
- The Draft Letter of Offer dated February 18, 2022 in connection with the Buyback ("Draft Letter of Offer"); and
- The Letter of Offer dated April 01, 2022 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

In terms of Regulation 8(i) of the SEBI Buyback Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on February 18, 2022. SEBI, vide its letter bearing reference no. SEBI/HO/CFD/DCR1/MB/OW/11435/1 dated March 30, 2022 ("SEBI Observation Letter"), issued its comments on the Draft Letter of Offer in terms of Regulation 8(ii) of the SEBI Buyback Regulations. These comments have been suitably incorporated in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Saturday, February 19, 2022 has been completed by April 06, 2022 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining Shareholders.

The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is available on the Website of the Company (www.fdcindia.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in), the Manager to the Buyback (www.sundaecapital.com), Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement from the websites indicated above.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

The Buyback Entitlement ratio for the Shareholders is as below:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback *
Reserved category for Small Shareholders	20 Equity Shares for every 307 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	9 Equity Shares for every 592 Equity Shares held on the Record Date

* The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved category for Small Shareholders is 6,514,586% and General category for all other Eligible Shareholders is 1,520,359%.

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 24-25 of the Letter of Offer.

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

- In case the Shares are held in Dematerialised Form Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.24 on page 29 of the Letter of Offer.
- In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 30 of the Letter of Offer.
- In case of non receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.28 on page 32 of the Letter of Offer.

An Eligible Shareholder holding share in physical form may also participate in the Buyback by downloading the Tender Form from the Website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the Website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in or by providing their application in writing on plain paper to the Registrar, signed by Eligible Shareholder or all Eligible Shareholders (in case Equity Shares are in joint name) stating name, address, folio number, number of Equity Shares held, share certificate number, number of Equity Shares tendered for the Buyback and the distinctive numbers thereof, bank account details together with the original share certificate(s), copy of Eligible Shareholders PAN card(s) and executed Form SH-4 in favour of the Company. The transfer Form (SH-4) can be downloaded from the Website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the Website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in. Eligible Shareholders must ensure that the Tender Form, along with the TRS and requisite documents (as mentioned in paragraph 20.20 above), reach the Registrar on or before the Buyback Closing Date (by 5:00 p.m.). If the signature(s) of the Eligible Shareholders provided in the plain paper application differs from the specimen signature(s) recorded with the Registrar / Company or are not in the same order (although attested), the Company / Registrar shall have a right to reject such applications.

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be made available by NSE before the Buyback Closing Date.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Board Meeting approving the Buyback	February 09, 2022	Wednesday
Date of publication of the Public Announcement for the Buyback	February 11, 2022	Friday
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	February 19, 2022	Saturday
Date of Opening of the Buyback	April 12, 2022	Tuesday
Date of Closing of the Buyback	April 27, 2022	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback *	April 29, 2022	Friday
Last date of verification of Shares tendered by the Registrar to the Buyback	May 05, 2022	Thursday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchanges	May 09, 2022	Monday
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar / payment of consideration to shareholders / return of unaccepted demat shares by Stock Exchange to Eligible Shareholders	May 09, 2022	Monday
Last date of extinguishment of Equity Shares	May 16, 2022	Monday

* Eligible Shareholders are required to submit their form(s) with their broker for bidding. After entering a valid bid, the seller member should send either by registered post / courier to the Registrar to the Buyback the Tender Forms along with the requisite documents, superscribing the envelope as "FDC Limited - Buyback 2022", or hand deliver the same to the Registrar to the Buyback at the address mentioned on the cover page or in Clause 18 of this Letter of Offer.

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates. Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

MANAGER TO THE BUYBACK	REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE
SUNDAE Sundae Capital Advisors Private Limited SEBI Regn. No.: INM000012494 Level 9, "Platina", Plot No. C - 59 'G' Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Tel.: +91 22 6700 0639 E-mail: fdc.buyback@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mh@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com Contact Person: Rajiv Sharma / Ridima Gulati	LINKintime Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel No.: +91 22 4918 6200 Fax No.: +91 22 4918 6195 Email id: fdc.buyback2022@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Regn. No.: INR000004058 Validity Period: Permanent Contact Person: Sumeet Deshpande

All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.

For and on behalf of the Board of Directors of

FDC Limited

Sd/- Mohan Anand Chandavarkar Managing Director (DIN: 00043344)	Sd/- Ashok Anand Chandavarkar Wholtime Director (DIN: 00042719)	Sd/- Varsharani Katre Company Secretary & Compliance Officer
--	--	--

Place: Mumbai
Date: April 07, 2022

Maharashtra latest state to raise electricity tariff


Higher coal, gas prices hit power companies across India

DEV CHATTERJEE
Mumbai, 7 April

With coal and gas prices hitting new highs, the Maharashtra electricity regulator has allowed all companies to raise power tariffs for the entire state. With this, Maharashtra joins a growing list of states to allow higher electricity tariff, citing the record high fuel prices.

On April 4, Karnataka allowed higher tariff for its customers who will pay an additional 35 paise per unit effective April 1. Telangana raised its tariff by 50 paise per unit after a gap of five year, while Andhra Pradesh also raised the power tariff up to ₹1.57 per unit across six different slabs.

In a circular dated April 5, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission said the demand of electricity is increasing and power generating companies are facing shortage of domestic coal. Further, the MERC said cost of imported coal has also increased manifold since March 2020. "All these factors have led to increased power purchase expenses of distribution licensees and there is possibility that the surplus maintained so far in the FAC (fuel adjustment charges) stabilisation fund will get exhausted and additional charges will have to be recovered from consumers according to the FAC mechanism," the MERC said.



Compiled by BS Research Bureau
Source: Bloomberg

In March 2020, the Maharashtra electricity regulator had determined the tariff for customers for five years when Richard Bay coal prices — the global barometer for the fuel — was hovering at \$64-72 a tonne. Since then, the coal prices have gone up by 300 per cent.

The MERC said the fuel adjustment charges payable by each category of consumer will be rounded to nearest 0, 5, 10, and beyond paise per unit. "Thus, if FAC leviable is 1 or 2 paise, then it is rounded to 0 paise and if it is 3 and 4 paise, then it is rounded to 5 paise and likewise," the MERC said.

Based on rising coal prices, Tata Power, which depends on imported coal to supply power to Mumbai, is likely to raise its electricity tariff by ₹1.10 a unit, while Adani con-

sumers are facing a marginal hike of ₹0.15 to ₹0.25 a unit, according to industry sources. Both companies will have to apply to MERC for revised tariff for approval.

When contacted, an Adani Electricity spokesperson said the company has ensured long-term planning with an objective to provide tariff visibility to its consumers. "Our tariff shall remain most competitive with FAC impact on our consumers being mitigated through 100 per cent domestic coal supply and power supply from renewable energy sources," the Adani Electricity spokesperson said.

A Tata Power official said the MERC directives will be followed, and there will be no FAC in the near future. "We are completely prepared to provide 24x7 power to our customers as we obtain power from a variety of (pooled) energy sources that help us keep our tariffs low. As on date we have one of the lowest tariff rates in Mumbai. The current situation is transient in nature, and we will manage it in the best interests of our customers," the Tata Power spokesperson said.

Ratings firm Fitch warned that rising electricity prices will affect the already-weak financial profiles of distribution companies in India that have been unable to pass on the increased costs to customers on a timely basis.

India-Israel FTA talks to gather pace next month


SHREYA NANDI
New Delhi, 7 April

Talks between India and Israel to explore the possibility of a free trade agreement (FTA) are expected to gain momentum as early as next month, people aware of the matter said.

Discussions and negotiations for an FTA with Israel have been going on for over a decade. However, over the last six months, leaders from both nations have shown enough interest to resume talks to expand bilateral trade ties.

After preliminary discussions between the countries at the end of last year, the process of exchanging items of interest, trade and tariff data had started. "Preliminary discussions had started, but the outbreak of Omicron delayed the talks. Meanwhile, Israel was also having discussions with the United Arab Emirates (UAE) for an FTA. Now that Israel and UAE have concluded the agreement (last week) and (we) will have to complete the procedure of implementation of our trade deal with UAE from 1 May, India will then once again try to engage with Israel," one of the persons cited above said.

While external affairs minister S Jaishankar had, in October last year, said that both countries intend to conclude negotiations by June, the official cited above said



that as of now there is no clarity. "We would like to re-engage with Israel and see what are the gains in trade, after which we need to finalise the modalities. Once there is clarity (on whether there will be a broader trade deal to an early harvest trade agreement), then we can launch the negotiations. A timeline will be fixed once both countries finalise the modalities," the official told *Business Standard*.

"FTAs are being signed for strategic reasons also and may not look only at the economic gains. In the case of Israel, the deal isn't significant in terms of economic/commercial gains but because Israel is now a key country for India as we are procuring defence equipment from them," Biswajit Dhar, professor at Jawaharlal University said.

'Bandhan endeavours to be a holistic financial services group'

KARNI S ARHA, managing director, Bandhan Financial Holdings, talks about the reason behind the acquisition of IDFC Asset Management Company (AMC) — the largest deal in the segment so far — in conversation with Manojit Saha. Edited excerpts:

What is the reason behind the acquisition of IDFC AMC?

Within financial services, asset management is one segment which is growing at a healthy pace. Even if you look at the trend of the past decade, it has a normal run rate between 15 per cent and 17 per cent. It is likely to continue in the same range for the next 10 years. India is a good market for the growth of the asset management industry.

As a business, we like this segment. Size and scale are a big requirement in this segment to be able to get an opportunity to buy an asset of this size and of this pedigree. IDFC has been around for a long time. It is among the top 10 largest mutual fund (MF) companies. It is a well-entrenched brand. The management is brilliant. We are going to continue with the management.

We like the future of the asset management industry. We wanted some size and scale and a good management. It made a very strong case for an acquisition like this.

IDFC AMC has lost market share in the past year. How do you plan to address that?

The market-share drop is temporary in nature. It is a reflection of the interest



rate, equity market, and the overall business environment. We are confident that this franchise will continue to grow and improve its position in the industry.

How do you plan to retain the existing assets under management (AUM) and increase the asset base since Bandhan has no prior MF experience? Won't investors be wary of investing in your schemes?

Bandhan Bank is a distinct entity. It is not that Bandhan Bank is not distributing MFs. It is already distributing eight to 10 different MFs, very successfully. Within Bandhan Group, we will have an associate company which is also an MF company that is able to put the product out there and deliver on the performance of the

product. That is an added advantage.

The acquisition cost looks high, considering the bulk of the IDFC MF AUM is on the debt side, which is typically not sticky.

We don't think it is very high. The valuation of all listed AMCs range between 5 per cent and 10 per cent of the average AUM. If you look at the price consideration for this particular transaction, it is slightly below 4 per cent of AUM. When you compare it to some of the listed players, this is not a high price. You have to see all these in a holistic manner.

Bandhan Group endeavours to be a holistic financial services company. It wants to offer all the products to customers. Asset management being one. There are other businesses that are likely to be and can be in the future. That is the way we wish to approach and the message we wish to send out.

With many bank-backed fund houses occupying top positions, where do you see IDFC MF five years hence?

We see this company only growing. There is no reason for it to not get top billing. Whether you want to be among the top three/five/six, it is only a question of when. We are building a franchise for the long haul. We want to ensure we build it the right way. We have all the ingredients in place. We also bring a lot of value additions from the consortium partners. These are key ingredients to ensure the firm continues to grow and perform well. We would definitely want it to improve its position and continue to be among the top companies in the industry.

Economy in good shape on high GDP growth: Jalan

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 7 April

The Indian economy is in good shape as the country's gross domestic product (GDP) growth rate and foreign exchange reserve are high, former governor of the Reserve Bank of India Bimal Jalan said on Thursday.

Notwithstanding economic uncertainties triggered by the Russia-Ukraine war that is also impacting the global supply chain, Jalan said it is not going to affect India's economic performance.

"India's current macro-economic situation is quite positive in the sense that the rate of growth is high. India's foreign exchange reserve is also very high," he told *PTI* in an interview. "India (Indian economy) is in good shape."

Asia's third-largest economy is projected to grow 8.9 per cent in 2021-22, according to recent government data. The RBI has pegged the economic growth rate for 2022-23 at 7.8 per cent.

The former RBI governor, however, stressed that unemployment is high, which is a matter of concern.

छोटे फंड हाउस की बाजार हिस्सेदारी कम

सचिन मामेटा
मुंबई, 7 अप्रैल



परिसंपत्तियों के लिहाज से निचले पायदान वाले म्युचुअल फंडों की बाजार हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है जबकि उद्योग में बढ़ोतरी होती रही है और बड़ी कंपनियों ने ज्यादातर परिसंपत्तियां हासिल की हैं।

निचले पायदान वाले 10 म्युचुअल फंडों की हिस्सेदारी मार्च 2022 में परिसंपत्तियों के अनुपात के तौर पर घटकर 20 आधार अंक रह गई है, जो मार्च 2016 में 62 आधार अंक थी। पिछले कुछ वर्षों में इनमें लगातार गिरावट दर्ज हुई है और यह जानकारी उद्योग निकाय एम्फी के आंकड़ों के विश्लेषण से मिली। इसकी तुलना में 10 अग्रणी म्युचुअल फंडों की हिस्सेदारी कमोबेश स्थिर बनी रही है, हालांकि ट्रेड ने उन्हें साल 2016 के मुकाबले ज्यादातर परिसंपत्तियां हासिल की हैं।

बंधन बैंक ने नौवीं सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी का अधिग्रहण कंसोर्टियम के साथ किया है। आईडीएफसी म्युचुअल फंड के पास मार्च 2022 में समाप्त तिमाही में औसत प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 1.2 लाख करोड़ रुपये की थी। यह बैंक को परिसंपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में पांव जमाने का मौका देगा।

कोलकाता मुख्यालय वाले बैंक ने शुरू में माइक्रोफाइनेंस संस्थान के तौर पर परिचालन किया था। उसे साल 2014 में यूनिफाइड बैंक लाइसेंस मिला। यह इकाई देश के पूर्वी इलाके में बैंकिंग सेवा के अभाव वाले क्षेत्र में सेवाएं देती है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में कहा गया है, बैंक ने उन राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जहां औपचारिक वित्त का मामला काफी कमजोर था। इसके अतिरिक्त पूर्वी बाजारों के बीच सेवा अभाव वाले क्षेत्रों में ज्यादातर प्रतिस्पर्धी सेकेंडरी लेंडर हैं और बंधन बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से वर्चस्व की

बाजार 2022 के निचले स्तर से 13 फीसदी ऊपर

सोमवार को सूचकांक 19 जनवरी के बाद पहली बार 60,000 पर दोबारा पहुंचा

समी मोडक
मुंबई, 7 अप्रैल



ऊंची तेल कीमतों, महामारी के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा महामारी के बाद राहत कार्यक्रम को वापस लिए जाने, और रूस तथा यूक्रेन के बीच संघर्ष थमने का संकेत नहीं दिखने जैसी समस्याओं के बावजूद घरेलू शेयर बाजार अपना आधार बरकरार रखने में काफी हद तक सफल रहे हैं। सेंसेक्स अपने 7 मार्च 2022 के 52,843 के निचले स्तर से करीब 13 प्रतिशत चढ़ा है। सोमवार को यह सूचकांक 19 जनवरी के बाद से पहली बार 60,000 के स्तर पर फिर से पहुंच गया। इसलिए अब सवाल यह है कि भारतीय बाजार द्वारा इस तेज सुधार को किस नजरिये से देखा जाना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में उन कई कारकों का जिक्र किया है जो बाजार ढांचे और गति इस तेजी में टोस बदलाव का संकेत दे सकते हैं। इन कारकों में शामिल हैं:

चुनाव परिणाम और नीति: इसमें कहा गया है कि ताजा राज्य चुनाव परिणामों से सरकार के नीतिगत प्रयासों को मदद मिली है, जिनमें जीडीपी में कॉरपोरेट लाभ की भागीदारी और निजी निवेश को प्रोत्साहन शामिल हैं।

नए लाभ चक्र और घरेलू प्रयास: ब्रोकरों का कहना है कि इसके स्पष्ट संकेत हैं कि भारतीय उद्योग जगत की मुनाफा वृद्धि नए चक्र में प्रवेश कर रही है। पूंजी पर प्रतिफल (आरओई) में

कॉइनबेस ने भारत में शुरू किया क्रिप्टो प्लेटफॉर्म

अमेरिकी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनबेस ने गुरुवार को भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की। पिछले साल 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ नैसडेक में कॉइनबेस सूचीबद्ध हुई थी। कंपनी ने कहा कि भारत में क्रिप्टो ट्रेडर अपने आधार कार्ड के साथ प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर सकते हैं और ऐप पर क्रिप्टो की खरीद-बिक्री के लिए अपने यूपीआई खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बैंगलूरु में कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा, भारत में कॉइनबेस की योजना लंबी अवधि के निवेश की है। उसके पास काफी ज्यादा इंजीनियरिंग व उद्यमिता से जुड़ी प्रतिभा है और नई तकनीक अपनाने के मामले में प्रतिबद्धता भी जताई है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि सीधे-सीधे इस तकनीक को नहीं लाया जा सकता और इसमें समय लगेगा। लेकिन हम बैंक साझेदारों व नियामकों के साथ काम करने को प्रतिबद्ध हैं। भारत के लोगों ने क्रिप्टो का इस्तेमाल करने की इच्छा जताई है और इन सेवाओं व उत्पादों में से कुछ तहत तक पहुंच बनाई है।

विलय-अधिग्रहण की श्रृंखला में आईडीएफसी एमएफ नया सौदा

चिराग मडिया
मुंबई, 7 अप्रैल

■बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, जीआईसी और क्रिसकेपिटल के कंसोर्टियम द्वारा 4,500 करोड़ रुपये में आईडीएफसी म्युचुअल फंड (एमएफ) का अधिग्रहण 38 लाख करोड़ रुपये के घरेलू एमएफ स्पेस में अधिग्रहण की श्रृंखला में ताजा सौदा है।

उद्योग के विश्लेषकों का मानना है कि कई मौजूदा कंपनियों को उद्योग की विकास संभावनाओं को देखते हुए भविष्य में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मॉर्निंगस्टार इंडिया में सहायक निदेशक (शोध प्रबंधक) हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है, 'मेरा मानना है कि विलय एवं अधिग्रहण (एमएंडए) एमएफ उद्योग में बरकरार रहेंगे। यदि मौजूदा एमएफसी आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यवसाय नहीं कर सकते, तो वे उन्हें अपने फंड हाउस बेचने होंगे। पिछले कुछ वर्षों में, उद्योग में कई विलय एवं अधिग्रहण हुए हैं। ऐसे कुछ मड़ोलें एवं छोटे आकार की एमएफसी हो सकती हैं जो लाभ नहीं कमा रही हों और इस उद्योग से निकलना चाहती हों।'

वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2022 से बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है। इस वृद्धि को वित्तीय परिसंपत्तियों में घरेलू बचत के बढ़ते अनुपात से मदद मिलेगी। मौजूदा समय में, भारत का एयूएम-जीडीपी अनुपात महज 17 प्रतिशत है जिससे पता चलता

है कि परिवारों की बचत का एक सिर्फ छोटा हिस्सा ही म्युचुअल फंडों में निवेश होता है। दिसंबर में, एचएसबीसी एमएफ ने करीब 3,200 करोड़ रुपये में एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का अधिग्रहण किया। मई 2021 में, नेक्स्टबिलियन टेकनोलॉजी (ग्रो ग्रुप की इकाई) ने करीब 175 करोड़ रुपये में इंडियाबुल्स एमएफसी एंड ट्रस्ट्री कंपनी को खरीदने के लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया था। जनवरी, 2021 में, सुंदरम एमएफसी ने प्रिंसिपल एमएफसी के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को खरीदने की घोषणा की थी। वहीं सचिन बंसल के स्वामित्व वाले नवी एमएफ ने एग्सेल एमएफ की परिसंपत्तियां खरीदी थीं।

जहां कई नई कंपनियां एमएफ क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन वृद्धि कुछ खास कंपनियों तक केंद्रित है। मौजूदा समय में, देश में 43 फंड हाउस हैं और इस उद्योग की करीब 80 प्रतिशत परिसंपत्तियों पर प्रमुख 10 कंपनियों का दबदबा है।

'केपीएमजी की रिपोर्ट स्वीकार न करे आरबीआई'

इशिता आयान दत्त
कोलकाता, 7 अप्रैल

श्रेय के संस्थापक हेमंत कनोडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र लिखकर मांग की है कि वह बैंकों व लेनदारों को श्रेय की दो कंपनियों के खिलाफ केपीएमजी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कदम न उठाने की सलाह दें।

सूत्रों के मुताबिक, कनोडिया ने आरबीआई से कहा है कि अनुचित रिपोर्ट के आधार पर होने वाली कार्रवाई मौजूदा समाधान प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा, जो आरबीआई की दिवालिया संहिता के तहत नियुक्त प्रशासन अंजाम दे रहे हैं। यह पत्र 17 मार्च को लिखा गया था और मामला एनसीएलटी के कोलकाता पीठ के पास लंबित है। कनोडिया ने केपीएमजी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए जनवरी में आवेदन जमा कराया था।

सूत्रों ने संकेत दिया कि इस पत्र में कनोडिया ने कहा है कि केपीएमजी की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया कोई भी कदम आईबीसी प्रक्रिया के तहत श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इन्विपमेंट फाइनेंस की सुधार प्रक्रिया पर असर डाल सकता है।

बढ़ती नीतिगत स्वायत्तता: रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब घरेलू चुनौतियां दूर करने के लिए बढ़ती नीतिगत स्वायत्तता का लाभ उठाने में सक्षम है। मॉर्गन स्टैनली में रणनीतिकार रिधम देसाई, शीला राठी और नयंत पारेख नक एक रिपोर्ट में कहा, 'हम वित्तीय और मौद्रिक नीति, दोनों में यह देख सकते हैं। सरकार सामान्य वित्तीय घाटे के मुकाबले ज्यादा की समस्या से जूझ रही है, जिसे कम करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है और आरबीआई नकारात्मक वास्तविक दरों के साथ बने रहने में सक्षम है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल अपनी आसान मौद्रिक नीति से बाहर हो गया है।'

तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव: ब्रोकरेज का कहना है कि वृहद हालात और बाजारों, दोनों पर तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव का प्रभाव जीडीपी में तेल की घटती तीव्रता के कारण कम हो रहा है। जहां भारत वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर निर्भर बना हुआ है, वहीं बढ़ती तेल कीमतों का प्रभाव अब ज्यादा स्पष्ट है।

फेडरल रिजर्व की सरस्ती का पड़ेगा असर

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 7 अप्रैल

फेडरल रिजर्व ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की तरफ से बुधवार रात जारी मिनट्स से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर मौद्रिक सख्ती का संकेत मिलता है। बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि फेडरल रिजर्व अपनी 9 लाख करोड़ डॉलर की बैलेंस शीट में साल में एक लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमी लाएगा। उसकी योजना महंगाई में नरमी के लिए एक महोने में बॉन्ड होल्डिंग में 95 डॉलर तक की कमी लाने की है क्योंकि महंगाई चार दशक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी का प्रतिफल पिछले एक महोने में 7 मार्च के 1.77 फीसदी से 2.6 फीसदी पर पहुंच गया। विगत में अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी देसी बाजार पर बड़ा असर डाल चुकी है। बेंचमार्क सूचकांक पिछले तीन कारोबारी सत्र में 2.5 फीसदी से नीचे आए हैं लेकिन अभी भी

मार्च के निचले स्तर के मुकाबले 12 फीसदी ऊपर है। वरिष्ठ बाजार विश्लेषक जेफरी हैले ने कहा, इन्विटी बाजार सख्त मौद्रिक नीति व शून्य ब्याज दर के खाल्ते से जुड़ी वास्तविकता को तेजी से दरकिनार करता रहा है। आगामी महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतिगत सामान्यीकरण पर हाउसिंग मार्केट अमेरिका व दूसरी जगहों पर किस तरह की प्रतिक्रिया जताता है। उभरते बाजारों खास तौर से भारत को फेड की बैलेंस शीट के विस्तार का फायदा मिला है। मार्च 2020 में बैलेंस शीट का आकार करीब 4.2 अरब डॉलर का था, जो तब से दोगुना हो चुका है। देसी बाजार इस अवधि में दोगुने से भी ज्यादा हो गए।

क्या फेड की तरफ से मात्रात्मक सहजता को त्यागने और मात्रात्मक सख्ती अपनाने से बाजार अपनी कुछ बढ़त गंवा देगा? एवेंडू कैपिटल ऑल्टरनेट स्ट्रेटिजीज के सीईओ एंड्रयू हॉर्लैंड ने कहा, यह फेड के अगले कदम पर निर्भर करेगा और ज्यादा संभावना यह है कि ब्याज में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी होगी।

OFFER OPENING ADVERTISEMENT FOR THE BUY BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018. ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF

FDC Limited
(CIN: L24239MH1940PLC003176)
Registered Office: B-8, M.I.D.C. Industrial Estate, Waluj - 431 130, Dist. Aurangabad, Maharashtra
Tel: +91 240 255 4407; Fax: +91 240 255 4299
Correspondence Address: C-33 KAVISTAS, Near Versova Police Station 106A, J. P. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053
Tel: +91 22 2672 9215
Website: www.fdcindia.com, Email: varsharani.katre@fdcindia.com
Contact Person: Ms. Varsharani Katre, Company Secretary and Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 29,00,000 (TWENTY NINE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RE. 1/- (RUPEE ONE) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.72% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2021 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON FEBRUARY 19, 2022 ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 475 (RUPEES FOUR HUNDRED SEVENTY FIVE ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UPTO 13,775 LAKHS (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY SEVEN CRORE SEVENTY FIVE LAKH ONLY) ("BUYBACK SIZE").

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- The Public Announcement in connection with the Buyback published on February 11, 2022 in the following newspapers: i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - All Editions); and iii) Loksatta (Marathi - Aurangabad Edition) ("Public Announcement");
- The Draft Letter of Offer dated February 18, 2022 in connection with the Buyback ("Draft Letter of Offer"); and
- The Letter of Offer dated April 01, 2022 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

In terms of Regulation 8(i) of the SEBI Buyback Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on February 18, 2022. SEBI, vide its letter bearing reference No. SEBI/HO/CFD/DCR1/MB/OW/11435/1 dated March 30, 2022 ("SEBI Observation Letter"), issued its comments on the Draft Letter of Offer in terms of Regulation 8(i) of the SEBI Buyback Regulations. These comments have been suitably incorporated in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Saturday, February 19, 2022 has been completed by April 06, 2022 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining Shareholders.

The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is available on the Website of the Company (www.fdcindia.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in), the Manager to the Buyback (www.sundaeapital.com), Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement from the websites indicated above.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

The Buyback Entitlement ratio for the Shareholders is as below:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback *
Reserved category for Small Shareholders	20 Equity Shares for every 307 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	9 Equity Shares for every 592 Equity Shares held on the Record Date

* The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved category for Small Shareholders is 6.514586% and General category for all other Eligible Shareholders is 1.520359%.

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 24-25 of the Letter of Offer.

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buyback:

- In case the Shares are held in Dematerialised Form Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.24 on page 29 of the Letter of Offer.
- In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 30 of the Letter of Offer.
- In case of non receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.28 on page 32 of the Letter of Offer.

An Eligible Shareholder holding share in physical form may also participate in the Buyback by downloading the Tender Form from the Website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the Website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in or by providing their application in writing on plain paper to the Registrar, signed by Eligible Shareholder or all Eligible Shareholders (in case Equity Shares are in joint name) stating name, address, folio number, number of Equity Shares held, share certificate number, number of Equity Shares tendered for the Buyback and the distinctive numbers thereof, bank account details together with the original share certificate(s), copy of Eligible Shareholders PAN card(s) and executed Form SH-4 in favour of the Company. The Transfer Form (SH-4) can be downloaded from the Website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the Website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in. Eligible Shareholders must ensure that the Tender Form, along with the TRS and requisite documents (as mentioned in paragraph 20.20 above), reach the Registrar on or before the Buyback Closing Date (by 5.00 p.m.). If the signature(s) of the Eligible Shareholders provided in the plain paper application differs from the specimen signature(s) recorded with the Registrar / Company or are not in the same order (although attested), the Company / Registrar shall have a right to reject such applications.

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be made available by NSE before the Buyback Closing Date.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Board Meeting approving the Buyback	February 09, 2022	Wednesday
Date of publication of the Public Announcement for the Buyback	February 11, 2022	Friday
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	February 19, 2022	Saturday
Date of Opening of the Buyback	April 12, 2022	Tuesday
Date of Closing of the Buyback	April 27, 2022	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback *	April 29, 2022	Friday
Last date of verification of Shares tendered by the Registrar to the Buyback	May 05, 2022	Thursday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchanges	May 09, 2022	Monday
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar / payment of consideration to shareholders / return of unaccepted demat shares by Stock Exchange to Eligible Shareholders	May 09, 2022	Monday
Last date of extinguishment of Equity Shares	May 16, 2022	Monday

* Eligible Shareholders are required to submit their form(s) with their broker for bidding. After entering a valid bid, the seller member should send either by registered post / courier to the Registrar to the Buyback the Tender Forms along with the requisite documents, superscribing the envelope as "FDC Limited - Buyback 2022", or hand deliver the same to the Registrar to the Buyback at the address mentioned on the cover page or in Clause 18 of this Letter of Offer.

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

MANAGER TO THE BUYBACK	REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE
SUNDAE Sundae Capital Advisors Private Limited SEBI Regn. No.: INM000012494 Level 9, "Platina", Plot No. C - 59 'G' Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Tel.: +91 22 6700 0639 E-mail: fdc.buyback@sundaeapital.com Investor Grievance e-mail id: inquiries.mb@sundaeapital.com Website: www.sundaeapital.com Contact Person: Rajiv Sharma / Ridima Gulati	LINKIntime Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel No.: +91 22 4918 6200 Fax No.: +91 22 4918 6195 Email id: fdc.buyback2022@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Regn. No.: INR00004058 Validity Period: Permanent Contact Person: Sumeet Deshpande
All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.	
For and on behalf of the Board of Directors of	
FDC Limited	
Sd/- Mohan Anand Chandavarkar Managing Director (DIN: 00043344)	Sd/- Ashok Anand Chandavarkar Wholetime Director (DIN: 00042719)
Sd/- Varsharani Katre Company Secretary & Compliance Officer	
Place: Mumbai Date: April 07, 2022	

Union Mutual Fund
Union Asset Management Company Private Limited
Investment Manager for Union Mutual Fund
Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201
Registered Office: Unit 503, 5th Floor, Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059
• Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268; • Non Toll Free. 022-67483333;
• Fax No: 022-67483401; • Website: www.unionmf.com; • Email: investorcare@unionmf.com

NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018 as amended from time to time, **Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Half Yearly Portfolio Statements of all the Schemes of Union Mutual Fund for the period ended March 31, 2022 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com.** The Investors/Unitholders can view and download the Half Yearly Portfolio Statements from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Half Yearly Portfolio Statements by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

For Union Asset Management Company Private Limited
(Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai
Date: April 07, 2022

Sd/-
Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; **Sponsors:** Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; **Trustee:** Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; **Investment Manager:** Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

राज्यात दोन हजारान्वर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक निवडणूक प्रक्रियेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

लोकसत्ता प्रतिनिधी

औरंगाबाद : राज्य शासनाने केल्याशिवाय निवडणुकीची प्रक्रिया राबवू शकत नाही. पर्यायाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे. अर्थात सध्या दोन हजारान्वर अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासक नियुक्त असून त्यांच्या कामकाजासंबंधी विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक आहेत. त्यामुळे संबंधित कायदे रद्द करून त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी गुरुवारी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अभय ओक व न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी अपेक्षित आहे.

राज्यापालांनी ११ मार्च रोजी शिकवामोर्तब केल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे विहित मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे आयोगास बंधनकारक आहे. आयोगाच्या कामकाजात राज्य शासन हस्तक्षेप करू शकत नाही. आता राज्य शासनाने प्रभागरचना केल्याशिवाय आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया राबवू शकत नाही. पर्यायाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे. राज्यात दोन हजारापेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासक म्हणजेच पर्यायाने राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज चालवित आहे. विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे कायदे रद्दबातल ठरवावेत, त्याचप्रमाणे सद्यःस्थितीत सदर कायद्यांना त्वरित स्थगिती देऊन राज्य निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाप्रमाणे त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. शशीभूषण आडगावकर, अॅड. परमेश्वर, अॅड. कैलास औताडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेटाणकर आणि राज्य शासनातर्फे अॅड. शेखर नाफडे, अॅड. राहुल चिटणीस काम पाहत आहेत.

‘निर्बंध हटले तरी लसीकरण टाळू नका’

राजेश टोपे यांचे आवाहन

लोकसत्ता वार्ताहर

जालना : कोरोना संदर्भातील निर्बंध राज्यात हटविण्यात आले असले, तरी नागरिकांनी लसीकरण मात्र करून घ्यावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीची ज्यांची पहिली किंवा दुसरी मात्रा बाकी असेल त्यांनी ती घ्यावी, कारण ते आरोग्यासाठी हितकारक असल्याचे टोपे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील माहितीनुसार गुरुवारी सकाळपर्यंत राज्यात सात कोटी १५ लाख ७१ हजारापेक्षा अधिक कोरोनाच्या प्रयोगशाळा चाचण्या झाल्या. त्यापैकी ७८ लाख ७४ हजार ६९० (९१.१० टक्के) नमुने कोरोनाबाधित निघाले. ७७ लाख २६ हजार रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. राज्यात एक लाख ४७ हजार ८०० (१.८७ टक्के) कोरोना रुग्णांचा मृत्यू

‘एक्सई’चे जनुकीय क्रम निर्धारण

राज्यात आढळून आलेल्या कोरोना विषाणूचा ‘एक्सई’ या उत्परिवर्तित प्रकाराच्या संदर्भात राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने म्हटले आहे की, मुंबईत ५० वर्षे वयाच्या एका दक्षिण आफ्रिकन महिलाच्या प्राथमिक तपासणीत हा उत्परिवर्तित विषाणू आढळला आहे. ही महिला गेल्या १० फेब्रुवारी रोजी मारवात आली. २७ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या प्रयोगशाळा चाचणीत ती कोरोनाबाधित आढळली. त्यानंतर कस्तुरबा रज्ज्गालाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत तिला एक्सई उपकाराची बाधा झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ‘जीआयएसआयवडी’च्या तपासणीतही हा उत्परिवर्तित विषाणू एक्सई असल्याचे आढळून आले. परंतु असे असले तरी हा उत्परिवर्तित विषाणूची निःसंशय खात्री करवी यासाठी नमुन्यांचे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत जनुकीय क्रमनिर्धारण करण्यात येणार आहे. विषाणूच्या जनुकीय रचनेमागे बदल होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया असून जनतेने घबरू नये, असेही आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.

१७ हजार ५२ रुग्णांचा मृत्यू झाला. राज्यात सक्रिय कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी झाले आहे. गेल्या बुधवारी राज्यात ही संख्या ८६५ होती.

जालना जिल्ह्यात सर्व गटांतील ७९ टक्के नागरिकांनी लसीची पहिली मात्रा घेतली आहे. तर ५८ टक्के नागरिकांनी दुसरी मात्रा घेतली आहे. जिल्ह्यात १२ ते १४ वर्षे वयोगटात ७० हजार ७३२ लसीकरणे जडविण्यात आले.

यापैकी ४१ टक्के पहिले लसीकरण झाले आहे. तर १५ ते १७ वर्षे वयोगटात ६६ टक्के पहिले तर ३९ टक्के दुसरे लसीकरण झालेले आहे.

जालना. लाख १५ हजारापेक्षा अधिक आतापर्यंत मराठवाड्यात सात कोरोनाबाधित आढळून आले. यापैकी

OFFER OPENING ADVERTISEMENT FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018. ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF



FDC Limited

(CIN: L24239MH1940PLC003176)
Registered Office: B-8, M.I.D.C. Industrial Estate, Wajul - 431 130, Dist. Aurangabad, Maharashtra
Tel: +91 240 255 4407; Fax: +91 240 255 4299
Correspondence Address: C-3 SKYVISTAS, Near Versova Police Station 106A, J. P. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053
Tel: +91 22 2673 9215
Website: www.fdcindia.com, Email: varsharani.katre@fdcindia.com
Contact Person: Ms. Varsharani Katre, Company Secretary and Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 29,00,000 (TWENTY NINE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RE. 1/- (RUPEE ONE) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.72% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2021 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON FEBRUARY 19, 2022 ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"). FOR CASH AT A PRICE OF RS. 475 (RUPEES FOUR HUNDRED SEVENTY FIVE ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UPTO 13,775 LAKHS (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY SEVEN CRORE SEVENTY FIVE LAKH ONLY) ("BUYBACK SIZE").

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- The Public Announcement in connection with the Buyback published on February 11, 2022 in the following newspapers: i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - All Editions); and iii) Loksatta (Marathi - Aurangabad Edition) ("Public Announcement");
- The Draft Letter of Offer dated February 18, 2022 in connection with the Buyback ("Draft Letter of Offer"); and
- The Letter of Offer dated April 01, 2022 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

In terms of Regulation 8(i) of the SEBI Buyback Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on February 18, 2022. SEBI, vide its letter bearing reference No. SEBI/HO/CFD/DCR1/MB/OW/11435/1 dated March 30, 2022 ("SEBI Observation Letter"), issued its comments on the Draft Letter of Offer in terms of Regulation 8(ii) of the SEBI Buyback Regulations. These comments have been suitably incorporated in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Saturday, February 19, 2022 has been completed by April 06, 2022 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining Shareholders.

The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is available on the Website of the Company (www.fdcindia.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in), the Manager to the Buyback (www.sundaeapital.com), Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement from the websites indicated above.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

The Buyback Entitlement ratio for the Shareholders is as below:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback *
Reserved category for Small Shareholders	20 Equity Shares for every 307 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	9 Equity Shares for every 592 Equity Shares held on the Record Date

* The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved category for Small Shareholders is 6.514586% and General category for all other Eligible Shareholders is 1.520359%.

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 24-25 of the Letter of Offer.

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

- In case the Shares are held in Dematerialised Form Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.24 on page 29 of the Letter of Offer.
- In case the Shares are held in Physical Form Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 30 of the Letter of Offer.
- In case of non receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.28 on page 32 of the Letter of Offer.

An Eligible Shareholder holding share in physical form also may participate in the Buyback by downloading the Tender Form from the Website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the Website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in or by providing their application in writing on plain paper to the Registrar, signed by Eligible Shareholder or all Eligible Shareholders (in case Equity Shares are in joint name) stating name, address, folio number, number of Equity Shares held, share certificate number, number of Equity Shares tendered for the Buyback and the distinctive numbers thereof, bank account details together with the original share certificate(s), copy of Eligible Shareholders PAN card(s) and executed Form SH-4 in favour of the Company. The transfer Form (SH-4) can be downloaded from the Website of the Company i.e., www.fdcindia.com or the Website of the Registrar i.e., www.linkintime.co.in. Eligible Shareholders must ensure that the Tender Form, along with the TRS and requisite documents (as mentioned in paragraph 20.20 above), reach the Registrar on or before the Buyback Closing Date (by 5:00 p.m.). If the signature(s) of the Eligible Shareholders provided in the plain paper application differs from the specimen signature(s) recorded with the Registrar / Company or are not in the same order (although attested), the Company / Registrar shall have a right to reject such applications.

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be made available by NSE before the Buyback Closing Date.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Board Meeting approving the Buyback	February 09, 2022	Wednesday
Date of publication of the Public Announcement for the Buyback	February 11, 2022	Friday
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	February 19, 2022	Saturday
Date of Opening of the Buyback	April 12, 2022	Tuesday
Date of Closing of the Buyback	April 27, 2022	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents to the Registrar to the Buyback *	April 29, 2022	Friday
Last date of verification of Shares tendered by the Registrar to the Buyback	May 05, 2022	Thursday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchanges	May 09, 2022	Monday
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar / payment of consideration to shareholders / return of unaccepted demat shares by Stock Exchange to Eligible Shareholders	May 09, 2022	Monday
Last date of extinguishment of Equity Shares	May 16, 2022	Monday

* Eligible Shareholders are required to submit their form(s) with their broker for bidding. After entering a valid bid, the seller member should send either by registered post / courier to the Registrar to the Buyback the Tender Forms along with the requisite documents, superscribing the envelope as "FDC Limited - Buyback 2022", or hand deliver the same to the Registrar to the Buyback at the address mentioned on the cover page or in Clause 18 of this Letter of Offer.

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates. Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tendering Equity Shares and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

MANAGER TO THE BUYBACK	REGISTRAR TO THE OFFER AND INVESTOR SERVICE CENTRE
SUNDAE Sundae Capital Advisors Private Limited SEBI Reg. No.: INM000012494 Level 9, "Platina", Plot No. C- 59 'G' Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Tel: +91 22 6700 0639 E-mail: fdc.buyback@sundaeapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mba@sundaeapital.com Website: www.sundaeapital.com Contact Person: Rajiv Sharma / Ridima Gulati	LINKintime Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel No.: +91 22 4918 6200 Fax No.: +91 22 4918 6195 Email id: fdc.buyback2022@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Regn. No.: INR00004058 Validity Period: Permanent Contact Person: Sumeet Deshpande

All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.

For and on behalf of the Board of Directors of

FDC Limited

Sd/- Mohan Anand Chandavarkar Managing Director (DIN: 00043344)	Sd/- Ashok Anand Chandavarkar Wholetime Director (DIN: 00042719)	Sd/- Varsharani Katre Company Secretary & Compliance Officer
---	--	---

बियाणी हत्या तपासाबाबत अशोक चव्हाण , गृहमंत्री वळसे-पाटील यांच्यात चर्चा

लोकसत्ता वार्ताहर

नांदेड: येथील बांधकाम व्यावसायिक दिवंगत संजय बियाणी यांच्या निवृत्त हत्येनंतर शहरातील व्यावसायिकांसह सर्व स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी मुंबईत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेतली आणि या विषयावर त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. मंगळवारी दोन आज्ञा हल्लेखोरांनी बियाणी यांच्यावर केलेल्या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला होता. बियाणी यांच्या हत्येने संपूर्ण नांदेड शहरात खळबळ उडाली. दरम्यान, नांदेडमधील परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर तसेच सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून चव्हाण बुधवारी रात्री मुंबईत पोहोचले. मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री वळसे-पाटील यांची स्वतंत्रपणे भेट घेऊन बियाणी हत्या प्रकरण आणि पुढील तपासासंबंधी त्यांच्याशी चर्चा

शुद्धीपत्रक

सर्व जनतेचे व संबंधितांचे कर्तव्यव्यतिरिक्त येते की, भारतीय स्टेट बँक, सार्व औरंगाबाद यांचे मार्केट कर्जदार मे.क्रिष्ण अशोक प्रा.लि. यांशी संबंधित ई-ऑनलाइन विक्री सूचना दि. १६/०३/२०२२ रोजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस व लोकसत्ता औरंगाबाद मध्ये प्रकाशित करण्यात आली होती.

सदरलि सूरुने मध्ये अ.क्र. ४ वर प्लॉट आणि मशीनरी नमुद केलेली आहे त्यात अनाअवधानाने '(१) ऑईल मिश्र : प्लिबेट्स, विलिनी बॅरल, एक्सपीलर्स व स्टोअरेज टँक' हे समाविष्ट करण्याचे शाहू गेले आहे. कृपया अ.क्र.३ वर लिखित सर्व घळ मालमत्ता उपरोक्त (१) वरील नमुद सह वाचणे. करिता हे शुद्धीपत्रक..

सही/- प्राधिकृत अधिकारी SBI - SARB औरंगाबाद

₹SBI भारतीय स्टेट बँक

शाखा : वैजापूर (०३५३८)

ताबा नोटीस

सदर मालमत्ता दि. ४.०४.२०२२ रोजी सेक्युरिटीयडेशन अॅड रिक्त-रुक्मान ऑफ फायनान्सियल अॅसेसर्स अॅड एफोसॅमेंट ऑफ सेक्युरिटी इंटरनेट अॅड २००२ कायद्याचे कलम १३ (१२) नियम ८ (१) अन्वये भारतीय स्टेट बँक, शाखा - वैजापूर (०३५३८) जि. औरंगाबाद यांनी ताबा घेतला आहे. तरी कर्जदार जामीनदार व तमाम जनतेस कळविण्यात येते की, खालील परिशिष्टात नमुद केलेल्या मिळकतीबाबत कोणीही कोणाशीही कोणत्याही प्रकारच्या तबदीलीची/हस्तांतरणाच्या करार करू नये. या उपर कोणीही तत्ता व्यवहार केल्यास तो बेकायदेशीर ठरवून भारतीय स्टेट बँक, शाखा-वैजापूर (०३५३८) जि. औरंगाबाद यांचे व मिळकतीवर बंधनकारक राहणार नाही, याची तमाम जनतेने दखल घ्यावी.

कर्जदार व जामीनदार	मालमत्तेचे विवरण	मागणी नोटीसीची तारीख व रक्कम	ताबा घेतल्याचा दिनांक
कर्जदार : झानेव ताणाणी भोवले, शोभा ताणाणी भोवले, सु.पो. वि.वार्हा, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद.	५८.५० चौ. भूभाग क्रमांक २६८/२ मधील चौ.मीटर, महानगरपालिका मालमत्ता क्रमांक ३/३७६६, ३/३७७० आणि ३/३७७१, रुग्णगण, लागाव रोड, वैजापूर, ता. वैजापूर असे नाव असून ते झानेव ताणाणी भोवले यांच्या मालकीचे आहे. पत्ता - शिववार्डी ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद. सीमा : पूर्व : ०९ मीटर रूंद रस्ता, पश्चिम : सडई क्रमांक २६८/२ मधील जमीन, उत्तर : भूखंड क्रमांक ७०, दक्षिण : भूखंड क्रमांक ६८ आणि ६९ मधील क्षेत्रफळदार बांधलेले दोे हाउस क्र.३.	२५/०५/२०२२ रकम रु. १३,६९,५६३.७८ + व्याज + इतर शुल्क	४.४.२०२२ वेळ : १०.०० ते ६.००

दिनांक : ८.४.२०२२ ठिकाण : वैजापूर, जि. औरंगाबाद अधिकृत अधिकारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया

इक्विटस स्मॉल फायनान्स बँक लि.

(पूर्वी इक्विटस फायनान्स लिमि.)

Small Finance Bank LTD

कोर्पोरेट कार्यालय : नं. 769, स्पॅन्सर प्लाझा, चौथा मजला, फ्लेस - II, अनन्ना सलाई, घेन्ई, टीएन - 600 002 # 044-42995000, 044-42995050

मागणी सूचना

सर्फेसी अधिनियम, 2002 मधील अनुच्छेद 13(2) अंतर्गत सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की पुढील कर्जदारांनी इक्विटस हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (ईएफएफएल)/इक्विटस फायनान्स लिमिटेड (ईएफएफएल)/इक्विटस स्मॉल फायनान्स बँक लि. (ईएफएफबी) यांचे कर्ज घेतले आहे. सदर कर्जदार आपल्या हप्त्याची परतफेड करण्यात असण्याने ठरवल्याने भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांचे कर्ज खाते अनुपादक मत्ता म्हणून वर्ग करण्यात आलेले आहे. आताम अचल मालमत्ता, कर्ज आणि सद्य दिनांकासकर्जदारास देणे असलेली थकबाकी ई. चा तपशील खाली देण्यात आलेला आहे. कर्जदार तसेच सर्व लोकांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की सुरक्षित धनकोचे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून सर्फेसी अधिनियम, 2002 मधील तरतुदीतर्गत पुढील कर्जदारांविरुद्ध कारवाई सुरु केलेली आहे आणि त्यांनी सदर मालमत्तेच्या संदर्भात कोणताही व्यवहार करू नये. त्यांच्या नावांसमोर नमुद करण्यात आलेल्या थकबाकी रकमेचा सदर सूचनाचा दिनांकापासून 60 दिवसांचे आत मरणा न केल्यात निमग्नवाहारीकार सर्फेसी अधिनियमातील अनुच्छेद 13 मधील उप-विभाग (4) अंतर्गत कोणत्याही एका किंवा अधिक हक्काची अंमलबजावणी करतील ज्यात मालमत्ताचा ताबा घेणे आणि त्यांची विक्री करणेसुद्धा समाविष्ट आहे.

कर्जदारांचे नाव/हमीदार(साखेचे नाव)	मागणी सूचनेची तारीख आणि रक्कम	सुरक्षित मालमत्तेचे वर्णन (स्थावर मालमत्ता)
शाखा : जेजगाव एल नं. SE.JAGON334607	5-मार्च-22 आणि रु. 27743	संपत्तीचा सर्व भाग आणि तुकडा सर्व नं. 170 / 2 / 2बी+170 / 2 / 2बी, प्लॉट नं. 1, इमारत नं. 10, ब्लॉक क्रमांक डी-20, क्षेत्रफळ 25.00 चौ.मी. मौजे मेहनन रोडे रिवात, जळगाव महानगरपालिकेच्या हद्दीत. ता. आणि जि. जळगाव. उत्तर : ब्लॉक नं. डी-19, दक्षिण : रोड, पूर्व : ब्लॉक नं. डी-1, पश्चिम : सामान्य पायवे, मोहामनाय : 2७9 चौ.फु. सह-रजिस्ट्रार सोएन-2 जळगाव न केल्यात निमग्नवाहारीकार नांदपी जिल्ह्याच्या उप-नोंदपी जिल्ह्यात स्थित आहे.

दिनांक : 08 / 04 / 2022 ठिकाण : औरंगाबाद सही/- प्राधिकृत अधिकारी इक्विटस स्मॉल फायनान्स बँक लि.

Chola

Enter a better life

चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड फायनान्स कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट कार्यालय : पहिला मजला, "दरे हाऊस", नं.२, एन.एस.सी. बॉय रोड, घेन्ई - ६०० ००१. शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. ३, पहिला मजला, बँकेच्या वतीने, बँक ऑफ बढोदोच्या समोर, शाहानुसिम दर्गा रोड, सारकामनगर, औरंगाबाद-४३१००५, संपर्क : ९९२२१२१३७०

लिलाव-नि-विड्रीकरिता जारी सूचना

भूगोळातील देय रकमेच्या वसुलीकरिता विविध मतेची सुरक्षितता आणि पुरवठ्या आणि सुरक्षा हित कायदा, २००२ची अंमलबजावणी अंतर्गत "मेसर्स चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड फायनान्स कंपनी लिमिटेड"च्या प्राधिकृत अधिकारीद्वारा याद्वारांनी नमुद केलेल्या सुरक्षित मालमत्ता प्रत्यक्ष ताबा घेण्याच्या अनुसर, याद्वारांनी यामिनाच्या मालमत्ते आणि, जी प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आले, यद्रीकरिता मोठेवटेल लिप्यातून निमग्नवाहारीकारांवर "मेसर्स ऑफ वेजे आहे", "जेजे आहे" असे काही आहे" आणि "जे काही आहे" नेचे आहे" या तत्वावर प्रस्ताव मान्यतायत आले आहेत. तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

भूगोळां / सह-भूगोळां / हमीदार	मागणी सूचनेची तारीख व रक्कम	स्थावर मालमत्तेचे वर्णन	राखीव किंमत	इतर रक्कम देव	एकूण थकीत कर्ज रक्कम
लीन अकाराट्ट नं. एक्स०एच३००००००००१९५२३६, १. अनिल भागीरथ चांदक, २. सुनिल भागीरथ चांदक, ३. त्रोलत सुनिल चांदक, ४. नीग अनिल चांदक सर्व १ ते ४ राहणार : प्लॉट नं. १०३-ए, श्रीकृष्ण रुग्णगणानगर, सडई नं. १२७/३, न्यू मोडा रोड, जालना-४३१२०३.	०५/०२/२०१९	पुढील मालमत्तेचे सर्व खंड व तुकडे : * मालमत्ता १ : धारण केलेला प्लॉट नं. १७, भोजमापाचा ६०.५ चौ.मी., सडई नं. १२७/१ व १२७/२, सीटीएस नं. ११९४४/८३, महेशानगर, भोकरदान रोड, जालना. पुढीलप्रमाणे सीमित : पूर्व : प्लॉट नं. १८, पश्चिम : श्री. कोदारी यांचा प्लॉट, दक्षिण : इंदरनल रोड, उत्तर : प्लॉट नं. ४८. आणि धारण केलेला प्लॉट नं. १८, भोजमापाचा ७०.३ चौ.मी., सडई नं. १२७/१ व १२७/२, सीटीएस नं. ११९४४/८३, महेशानगर, भोकरदान रोड, जालना. पुढीलप्रमाणे सीमित : पूर्व : सीटीएस नं. ११९४४/८५, पश्चिम : सीटीएस नं. ११९४४/८३, दक्षिण : रोड, उत्तर : सीटीएस नं. ११९४४/८१.	₹ ५४,१२,०००/-	₹ ५४,१२,०००/-	₹ १,५८,६४,५११.९१/२- १७-०३-२०२२ रोजी प्रयोग प्रदानाच्या तारखेपर्यंत त्यावरील पुढील व्याज, दंडात्मक व्याज, किंमत व आकार यासह एकत्रित.
५. मधुसू ट्रेडिंग कंपनी, पत्ता : शांी नं. बी-७३, एपीएसएच मार्केट याई, जालना-४३१२०३.	१. १०/०३/७३ए/०३-०५/२०२१९ रोजी प्रमाणे	* मालमत्ता २ : धारण केलेला प्लॉट नं. १०३-ए, भोजमापाचा १६५ चौ.मी., विल्ड-अप एरिआ ८२.५० चौ.मी., सीटीएस नं. ११९४४/१०३, श्रीकृष्ण रुग्णगणानगर, सडई नं. १२७/३, भोकरदान रोड, जालना. पुढीलप्रमाणे सीमित : पूर्व : ६ मी.रोड, पश्चिम : प्लॉट नं. ११२, दक्षिण : प्लॉट नं. १०३ पाट, उत्तर : प्लॉट नं. १०४.	₹ ४०,००,०००/-	₹ ४०,००,०००/-	₹ ४०,००,०००/-

** बोलोदार, त्यांच्या निवडीनुसार, लिखित प्रस्ताव अर्ज करून लिलावातील सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील, जी वर नमुद केलेल्या कार्यालयीन पत्त्यावर प्रस्ताव / निविदा कागदाप्रमाणे उपलब्ध